



रेलटेल
RAILTEL
A mini
ratna enterprise

Ref: RailTel/Sectt/21/SE/S-16

Date: September 26, 2022

लिस्टिंग विभाग नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051 Scrip Symbol- RAILTEL	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, किला, मुंबई - 400 001 Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001 Scrip Code- 543265
--	---

Sub: Copy of the Newspaper Publication of the Addendum to the Notice of the 22nd Annual General Meeting for the FY 2021-22.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of publications of Addendum to the Notice of 22nd Annual General Meeting of the Company published in newspaper (English and Hindi daily) on 25th September, 2022.

2. The above-mentioned publications are also made available at the website of the Company at www.railtelindia.com

3. Please take note of the above information on record.

धन्यवाद,

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए


26/09/22

जे. एस. मारवाह

कंपनी सचिव एव अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या – एफ सी एस 8075



संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

वितरण:- 1) सहायक कंपनी सचिव को फाइल में रखने हेतु।

2) सहायक प्रबंधक/पी.आर.ओ.को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
RailTel Corporation of India Ltd. (A Government of India Undertaking)

CIN : L64202DL2000GOI107905

Registered & Corporate Office : Plate-A, 6th Floor, Office Block, Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023
T : +91 11 22900600, F +91 11 22900699 | Website : www.railtelindia.com

Step up e-auction in default cases: Finance minister

Recovery efforts by banks, especially state-run ones, surged after a massive spike in their NPAs was reported, following a comprehensive review of their asset quality by the central bank in December 2015. Banks' gross NPAs jumped from ₹3.2 trillion as of March 2015 to ₹10.4 trillion by March 2018, with PSBs accounting for most of the bad loans. The recovery by state-run banks, through various mechanisms, picked up steadily before the pandemic somewhat slowed down the process in FY21.

PSBs recovered about ₹5.5 trillion from bad loans over seven years through FY21. The recovery, as a percentage of gross the NPAs at the beginning of the financial year, improved from 11.33% in FY18, to 13.52% in FY19 and to 14.69% in FY20.

Byju's pays \$230 m due to Blackstone for Aakash buy

FE had earlier reported that the deferred payment terms between Byju's and Blackstone were regulated under the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, which provided a legal framework for the transfer of equity instruments between foreign and domestic parties.

The rules mandated that a maximum of 25% of the total consideration may be paid on a deferred basis under existing regulations. However, a maximum period of only 18 months from the date of transfer agreement is available for payment of such consideration, subject to compliance with RBI's pricing guidelines.

The deferred payments structure to Blackstone and promoters of AESL comes at a time when an \$800 million funding deal announced by Byju's in March 2022 saw two investors pull out after a public statement was made. In July 2022, a large chunk of this capital amounting to \$300 million from Sumeru Capital Oxsott was reportedly not deposited with Byju's.

Byju's CEO and co-founder Byju Raveendran, however, admitted publicly that the \$300 million in funds was, in fact, withdrawn by the investors.

The edtech major is currently in the middle of funding talks to raise over \$500 million (about ₹3,900 crore) at a valuation of around \$23 billion. It is said to be in discussion with Abu Dhabi's Sovereign Wealth Funds (SWF) and Qatar Investment Authority (QIA) for the new proposed \$500 million round.

According to its financial statement released on Wednesday, Byju's FY21 net

loss shot up to ₹4,588 crore from ₹231.69 crore in FY20. The company's total revenues during the year saw a marginal growth of 3.32% to ₹2,428.39 crore.

Non-metros drive online festive sales

With the 5G launch in October, smartphone searches on Amazon saw a strong double-digit growth versus last year and a 20X uplift versus an average business day. "5G smart phones saw a strong uptake alongside customers showing a preference for mid-tier to premium smartphones. Customers shopped from top brands such as OnePlus, Samsung, Xiaomi, iQOO, Realme and Apple," the company said.

For instance, the iPhone 13, launched last year, retailed on Amazon for ₹49,999 but prices fluctuated as demand soared. Among electronics, television sets, laptops and smart watches were most picked.

Overall, Meesho had 6,000 orders every minute, while Amazon sold about 1 million unique products, during the first day of their respective sale events.

"Tier-2 and 3 cities accounted for 75% of the total customer base of the e-commerce major during its 'Great Indian Festival' sale,"

an Amazon India spokesperson said, adding that this year saw two times more customers from Tier-2 and 3 cities as compared to last year. The company saw its single-largest day of Prime sign-ups — about 1.9X higher than last year with 68% of the memberships coming from Tier-2 and 3 cities. Even Flipkart said its PLU customers showed a "healthy growth" as compared to last year's event. The majority of these customers were from non-metros.

Utkrishna Kumar, CXO, business, at Meesho, said, "With roughly 85% of orders and about 75% of sellers coming from Tier 2+ cities, we are humbled to have created a far-reaching impact in the deepest corners of the country."

All three e-commerce companies' annual sale started on September 23. It ends on September 27 for Meesho, on September 30 for Flipkart, while Amazon plans to run it for about a month till Diwali next month.

Post Pushpa success, brand Allu Arjun's value on the rise

Arjun was also recently roped in as for an ad film for redBus, an online bus ticket-booking platform.

Two years ago, he was the brand ambassador of the brand for two years. After *Pushpa's* massive success, the brand signed him on again. "We roped in Allu Arjun as our brand ambassador for the second time. His association with redBus goes back to 2017 when he was appointed as the brand ambassador for two years. His strong appeal, not just in the south, but across the country, post his magnus opus *Pushpa*, will enable the redBus brand to penetrate further into the hinterland. He has propelled himself to a new league of action stars, liked by a wider set of audience," said a company spokesperson.

In fact, Allu Arjun just wrapped up the shoot for American fast food chain KFC, which has featured Anil Kapoor, Karan Johar and PT Usha in their ad films in the past. A KFC India spokesperson shared, "Leveraging trends and becoming a part of pop culture is how we remain relevant for our consumers. Our collaborations with celebs and content creators are marked by their signature style and delivered in distinct KFC manner. We have Allu Arjun raving about how it's the right spice for our latest peri peri chicken launch."

The domination of southern stars in brand endorsements did not happen overnight.

With every hit or flop actors deliver, they risk inflating or deflating their brand value. After two dull years at the box office during the pandemic, 2021 was a year of great expectations for the film industry. A Bollywood charmer, packed with groovy songs, an ensemble cast, lead actors that resonate with the masses was the need of the hour to send the cash registers ringing. However, this did not come from Bollywood but from the south. *Pushpa* become one of the biggest hits of that year with a business of more than ₹350 crore.

It is then no doubt that brands are knocking on Allu Arjun's doors. Aayushman Sinha, founder, REPRESENT, an artist-management agency, and consultant on the latest campaign by Coca-Cola said, "The brand has a strong philosophy of doing something different that can create an uplifting experience for their consumers, and Allu Arjun's energy and aura are a no-brainer when it comes to this. They were also looking at activating music once again and Arjun and his incredible dance moves were the perfect match."

In fact with films like *RRR*, *KGF*, Vikram becoming pan-India hits, top southern stars like Samantha Prabhu (who

endorses Myntra and also has her own brand Saaki on Myntra), Yash (who endorses Beardo, Freedom Refined Sunflower Oil), Vijay Devarakonda (who endorsed Thums Up, the brand that looks for actors with an adventurous spirit and image), Rashmika Mandanna (who endorsed Amul Macho alongside Vicky Kaushal, boAt, Cashify, among others) have become the new star endorsers of top brands and are giving tough competition to Bollywood with not just their films but a newfound pan-India relatability and following. Ambi Parameswaran, author, brand strategist/ coach and founder of Brand-Building, a brand advisory, shared, "In the past, southern stars were used for regional campaigns only. But it will take them many hits to get to the level of rural and semi urban recognition of a Bollywood star. Hopefully that too will happen."

Studies validate his brand appeal. As per Hansa Research's Brand Endorser (BE) report that was recently released, Arjun is the most recognised actor in the south with a recognition score of 85%, while among the female actors, Samantha Prabhu tops the list.

FDI set to hit record \$100-bn in FY23: Govt

Elevated foreign investments partly made up for the near-absence of domestic private capex in recent years.

However, as analysts have said, the current external headwinds — including the recession in the US and the EU, fresh Covid outbreak in China and the Ukraine war — will weigh on the flows of foreign direct investment globally. So, only those economies that can weather the external storm better than most stand to gain.

India, with a decent economic expansion, can capitalise on this adversity if it puts in place the right policies.

The ministry said several initiatives have been initiated to boost the Make in India programme.

Most important of these have been the 14 production incentive schemes across sectors, ranging from electronics, telecom and auto to pharma, textiles and steel.

Moreover, thanks to its crackdown on the imports of low-grade and hazardous toys and its efforts to boost domestic manufacturing, the purchases of toys from overseas crashed 70% in FY22 from a year before to \$110 million. Meanwhile, toy exports jumped 61% to \$326 million last fiscal, the ministry said.

Haryana farmers lift highway blockade



Farmers leader Gurnam Singh Chaduni

PRESS TRUST OF INDIA
Kurukshetra (Haryana), September 24

FARMERS ON SATURDAY lifted their over 20-hour blockade of the National Highway-44 at Shahabad after the government assured them of increasing the ceiling on per acre yield for procuring crops at Minimum Support Price (MSP). Farmers under Haryana Bhartiya Kisan Union (Chaduni) had on Friday blocked the national highway connecting Delhi and Chandigarh, demanding the government to immediately begin paddy procurement.

The procurement of Kharif crops, including paddy, in Haryana will start from October 1. BKU chief said the decision to end the stir was taken after the government agreed to consider procuring 30 quintals of paddy per acre instead of the earlier 22 quintals. "It was decided that the average yield of 30 quintals per acre will be considered for procurement at MSP in the main paddy yielding districts and 28 quintals per acre in other paddy districts," an official said.

Tharoor to file nomination for AICC prez poll

SENIOR CONGRESS LEADER Shashi Tharoor on Saturday got the nomination form for the AICC presidential poll collected from the party headquarters with sources saying he is likely to file his papers on September 30.

Tharoor's close aide Aalim Javeri collected the forms from the office of the party's central election authority chairman Madhusudan Misty on the first day of the start of the nomination process, all but confirming an electoral face-off for the top party post with Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot.

The nomination form is likely to be filed by Tharoor on the last day of the nomination process on September 30 as the idea is to collect nomination-endorsing signatures from across the country, sources told P.T.I. A total of 10 Pradesh Congress Committee delegates are needed to endorse a candidate.

After over two decades, the Congress is set to see a contest for the post of party chief with Gehlot, who has announced his candidature, expected to take on Tharoor. Tharoor on Monday had met Sonia Gandhi and expressed his intention to contest the poll. The Congress president conveyed she would stay "neutral" in the elections, according to sources. Sonia Gandhi had welcomed the idea of more people contesting the poll and dispelled the notion that there would be an "official candidate".

Tharoor to file nomination for AICC prez poll



PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 24

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, September 24

SENIOR CONGRESS LEADER Shashi Tharoor on Saturday got the nomination form for the AICC presidential poll collected from the party headquarters with sources saying he is likely to file his papers on September 30.

Tharoor's close aide Aalim Javeri collected the forms from the office of the party's central election authority chairman Madhusudan Misty on the first day of the start of the nomination process, all but confirming an electoral face-off for the top party post with Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot.

The nomination form is likely to be filed by Tharoor on the last day of the nomination process on September 30 as the idea is to collect nomination-endorsing signatures from across the country, sources told P.T.I. A total of 10 Pradesh Congress Committee delegates are needed to endorse a candidate.

After over two decades, the Congress is set to see a contest for the post of party chief with Gehlot, who has announced his candidature, expected to take on Tharoor. Tharoor on Monday had met Sonia Gandhi and expressed his intention to contest the poll. The Congress president conveyed she would stay "neutral" in the elections, according to sources. Sonia Gandhi had welcomed the idea of more people contesting the poll and dispelled the notion that there would be an "official candidate".

motherson
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED
(Formerly Motherson Sumi Systems Limited)
(CIN : L34300MH1986PLC284510)
Regd. Office: Unit-705, C Wing, ONE BKC, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400051, Maharashtra
Ph: +91 022-40555940; Fax: +91 022-40555940
Corporate Office: Plot No. 1, Sector 127, Noida-201301 (Uttar Pradesh)
Ph: +91 120 6679500; Fax: +91 120 2521866;
Email: investorrelations@motherson.com; Website: www.motherson.com
Investor Relations Phone Number: +91 120 6679500

DECLARATION OF POSTAL BALLOT RESULTS
Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Postal Ballot Notice dated August 16, 2022 as circulated to the shareholders seeking their approval has been passed with requisite majority.
A summarized statement of voting results is as under:

Particulars of the Resolution	Total numbers of vote through e-voting	Votes in favour		Votes against	
		No. of votes	%age of total votes	No. of votes	%age of total votes
Approval for issue of bonus shares to the shareholders in the ratio of 1 (one) bonus equity share against 2 (two) existing equity shares.	3980307765	3929703439	98.73	50604326	1.27

The detailed voting results may be accessed on the website of the Company at www.motherson.com and the website of e-voting agency, viz., <https://evoting.kfintech.com>. The voting results may also be accessed on the Stock Exchanges' website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Samvardhana Motherson International Limited (Formerly Motherson Sumi Systems Limited)
Alok Goel
Company Secretary

Orosil SMITHS INDIA LIMITED
(CIN: L74110DL1994PLC059341)
Regd. Office: Flat No. 820, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi-110019
Corporate Office: A-89, Sector-7, Noida-201301
Phone No.: 0120-4125476
Email Id.: info@orosil.com
Website: www.orosil.com

CORRIGENDUM TO THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-2022
Subsequent to the issuance of the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 together with the Notice, dated September 03, 2022, concerning the 28th Annual General Meeting of the Members of the Company scheduled to be held on September 30, 2022, we hereby inform you that there are inadvertent composition errors and the figures mentioned in Financial Statements attached with Statutory Auditor's Report were earlier appearing in INR (₹) as against INR Lakhs (₹ in Lakhs) which have been corrected by the Company and the Auditor, though not impacting the Financials in any manner. This is for the information of the Members of the Company. This corrigendum forms an integral part of the Annual Report and has been sent to the shareholders by e-mail and published on the website of the Stock Exchange (BSE) and the Company www.orosil.com.

By Order of the Board For Orosil Smiths India Ltd. Sd/-
B.K. Narula
(Managing Director)
DIN: 00003629
Place: Noida
Date: 24.09.2022

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD
(A Govt. of India Undertaking)
Corporate Identity Number: L64202DL2000G01107903
Registered & Corporate Office: Plot - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023.
Phone: +91 11-22900600, Fax: +91 11-22900699.
Website: www.railtelindia.com; E-mail: cs@railtelindia.com;

ADDENDUM TO THE NOTICE OF THE 22ND ANNUAL GENERAL MEETING
This is an addendum to the Notice of the 22nd (Twenty-Second) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company scheduled to be held on Friday, the 30th day of September, 2022 at 11:30 Hrs through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM"). The Notice of 22nd AGM has already been sent to the members of the company through electronic mode on 07th September, 2022, whose e-mail ID(s) were registered with the Depository Participant (DP) or Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 20/2020 dated 05/05/2020 and subsequent circulars and the latest being, Circular No. 02/2022 dated 05/05/2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13/05/2022 issued by the Securities Exchange Board of India ("SEBI").

Subsequent to the issuance of the Notice of 22nd AGM, the Ministry of Railways vide its letter no. 2022/E(O)/11/40/3 dated 23/09/2022 has appointed Shri Sanjai Kumar as the "Chairman & Managing Director" of the Company.
In view of the change in designation of Shri Sanjai Kumar from Director/Network, Planning & Marketing to **Chairman & Managing Director** of the Company, the Item No. 3 of the Notice of 22nd AGM stand modified as follows:-
Item no. 3:-
"To appoint a Director in place of Shri Sanjai Kumar (DIN: 06923630), Chairman & Managing Director who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment."
This addendum to the Notice of AGM shall form an integral part of the Notice of 22nd AGM dated 05th September, 2022 already circulated to the members of the Company.
The addendum to the Notice of 22nd AGM is being circulated electronically to those members to whom AGM Notice has been sent earlier, in terms of the provisions of the Companies Act, 2013. The same is also hosted on the website(s) of the Company (www.railtelindia.com), Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and NSDL (www.evoting.nsdl.com).

Place: New Delhi
Date: 24/09/2022
E-Mail: cs@railtelindia.com
Phone : +91 11 22900600
Fax : +91 11 22900699

For RailTel Corporation of India Limited
(J.S. Marwaha)
Company Secretary & Compliance Officer

PGIM India Asset Management Private Limited
4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100
CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446
Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE
Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, the Trustee to PGIM India Mutual Fund ("Fund"), has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") under the following schemes of the Fund with **September 30, 2022** as the record date:

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on September 23, 2022 (₹ per unit)#
PGIM India Banking & PSU Debt Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.1410	10	10.6759
PGIM India Banking & PSU Debt Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.1410	10	10.6263
PGIM India Corporate Bond Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.1730	10	13.0596
PGIM India Corporate Bond Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.1540	10	11.6143
PGIM India Dynamic Bond Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	15.8500	1000	1,186.4242
PGIM India Dynamic Bond Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	14.6500	1000	1,096.2427
PGIM India Gilt Fund	Direct Plan - IDCW Option	0.1940	10	14.4285
PGIM India Gilt Fund	Regular Plan - IDCW Option	0.1870	10	13.9405
PGIM India Short Duration Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.1420	10	10.7627
PGIM India Short Duration Fund	Regular - Quarterly IDCW Option	0.1350	10	10.1999
PGIM India Large Cap Fund	Direct Plan - IDCW Option	0.4730	10	24.9900
PGIM India Large Cap Fund	Regular Plan - IDCW Option	0.3450	10	18.2500

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option of the above-mentioned Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar & Transfer Agent as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW. The Payout shall be subject to tax deducted as source, as applicable.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

For PGIM India Asset Management Private Limited
(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : September 24, 2022

Sd/-
Authorized Signatory

CANARA ROBECO
Canara Robeco Mutual Fund
Investment Manager : Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.
Construction House, 4th Floor, 5, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 001.
Tel.: 6658 5000 Fax: 6658 5012/13 www.canararobeco.com CIN No.: U65990MH1993PLC071003

NOTICE NO. 32
Declaration of Dividend/Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") in Canara Robeco Mutual Fund Schemes:

Notice is hereby given that the Board of Trustees of Canara Robeco Mutual Fund has declared dividend/IDCW in the following schemes, subject to availability of distributable surplus:

Scheme Name	Investment Option	Dividend/ICDW (₹ Per unit)	Face Value (₹ Per unit)	NAV Per Unit as on 22.09.2022 (₹)
Canara Robeco Short Duration Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.15	10.00	14.7781
	Direct Plan - Quarterly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.16	10.00	16.1555
Canara Robeco Short Duration Fund	Regular Plan - Monthly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.06	10.00	14.9068
	Direct Plan - Monthly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.06	10.00	16.6475
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.20	10.00	13.6459
	Direct Plan - Quarterly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.24	10.00	15.7157
Canara Robeco Conservative Hybrid Fund	Regular Plan - Monthly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.10	10.00	13.5482
	Direct Plan - Monthly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.10	10.00	15.7766
Canara Robeco Income Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.15	10.00	14.5284
	Direct Plan - Quarterly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.16	10.00	16.0281
Canara Robeco Equity Hybrid Fund	Regular Plan - Monthly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.64	10.00	87.5200
	Direct Plan - Monthly IDCW (Payout/Reinvestment) Option	0.60	10.00	106.5900

Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the IDCW option of the schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if any).

Record Date for the purpose of distribution of dividend/IDCW is 30th September, 2022 or the next business day if the record date happens to be a non-business day. All unit holders, under the abovementioned Plan/ Option, whose names appear on the register of unit holders of the Scheme as on the record date, are eligible for the dividend/IDCW.

The Dividend/IDCW declared out of the Distributable Surplus of the abovementioned Schemes will be paid net of tax deducted at source (TDS) as applicable, to those unit holders whose names appear in the register of unit holders as on the Record Date.

Declaration of dividend/IDCW is subject to availability of distributable surplus on the record date/ex-dividend date. In case the distributable surplus is less than the quantum of dividend/IDCW on the record date/ex-dividend date, the entire available distributable surplus in the Scheme/plan will be declared as dividend/IDCW.

SEBI circular no. SEBI/HO/IMD/DF3/CIR/P/2020/194 dated 5th October, 2020 on review of Dividend option(s)/ Plan(s) in case of Mutual Fund Schemes shall be applicable for calculation of distributable surplus.

In view of individual nature of tax consequences, each investor is advised to consult his/her own professional financial/tax advisor.

Unit holders are requested to visit www.canararobeco.com to claim their Unclaimed Redemption & Dividend amounts and follow the procedure prescribed therein.

For and on behalf of Canara Robeco Asset Management Company Ltd.
(Investment manager for Canara Robeco Mutual Fund)

Date: 24-09-2022 Sd/-
Place: Mumbai Authorized Signatory

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

PGIM India Asset Management Private Limited
4th Floor, C wing, Laxmi Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.
Tel.: +91 22 6159 3000. Fax: +91 22 6159 3100
CIN: U74900MH2008FTC187029 Toll Free No.: 1800 266 7446
Website: www.pgimindiamf.com

NOTICE
Notice is hereby given that PGIM India Trustees Private Limited, the Trustee to PGIM India Mutual Fund ("Fund"), has approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") under the following schemes of the Fund with **September 30, 2022** as the record date:

Scheme Names	Plans / Options	Quantum of IDCW per Unit (Gross of Statutory Levy, if any)* (₹)	Face Value (₹ Per Unit)	NAV of IDCW Option as on September 23, 2022 (₹ per unit)#
PGIM India Banking & PSU Debt Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.1410	10	10.6759
PGIM India Banking & PSU Debt Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.1410	10	10.6263
PGIM India Corporate Bond Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.1730	10	13.0596
PGIM India Corporate Bond Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	0.1540	10	11.6143
PGIM India Dynamic Bond Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	15.8500	1000	1,186.4242
PGIM India Dynamic Bond Fund	Regular Plan - Quarterly IDCW Option	14.6500	1000	1,096.2427
PGIM India Gilt Fund	Direct Plan - IDCW Option	0.1940	10	14.4285
PGIM India Gilt Fund	Regular Plan - IDCW Option	0.1870	10	13.9405
PGIM India Short Duration Fund	Direct Plan - Quarterly IDCW Option	0.1420	10	10.7627
PGIM India Short Duration Fund	Regular - Quarterly IDCW Option	0.1350	10	10.1999
PGIM India Large Cap Fund	Direct Plan - IDCW Option	0.4730	10	24.9900
PGIM India Large Cap Fund	Regular Plan - IDCW Option	0.3450	10	18.2500

*Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option of the above-mentioned Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy, if any.

IDCW will be paid to those unit holders whose names appear in the records of the Registrar & Transfer Agent as at the close of business on the record date. For units in dematerialized form, all unit holders whose names appear in the beneficiary position file downloaded from the depositories as on the record date will be entitled to receive the IDCW. The Payout shall be subject to tax deducted as source, as applicable.

*The IDCW distribution will be subject to the availability of distributable surplus under the schemes and may be lower to the extent of distributable surplus available on the Record Date.

For PGIM India Asset Management Private Limited
(Investment Manager for PGIM India Mutual Fund)

Place : Mumbai
Date : September 24, 2022

Sd/-
Authorized Signatory

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

